

आरोग्य सेतु App

- 1- यह मोबाइल एप्लिकेशन भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य कोरोनावायरस और COVID -19 से लोगों को अवगत कराना है। यह App ब्ल्यूटूथ , आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस तकनीक पर कार्य करता है ।
- 2- आरोग्य सेतु एप को आइओएस और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्मों पर लांच किया गया है। लोग इस एप को आइओएस एप-स्टोर या प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
- 3- कोरोना से सम्बंधित, ICMR , स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सूचना , निर्देश व कोरोना से बचाव के तरीके App पर त्वरित रूप से उपलब्ध रहेगी ।
- 4- अगर कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्तियों के आस - पास रहा है तो यह App यह जानकारी भी देगा ।
- 5- App में एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट उपलब्ध है । टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों के सही-सही उत्तर देने पर यह उस व्यक्ति को संक्रमण के स्तर की जानकारी और जोखिम के आंकलन की जानकारी देगा ।
- 6- इस एप पर कोरोना से संबंधित सुरक्षा उपाय क्या करें क्या ना करें। आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य, वीडियो, फोटो और अपडेट जानकारीएं एप पर मौजूद रहेंगी।
- 7- यह App कोरोना वायरस से सम्बंधित सवालों के Authentic उत्तर देता है इसके साथ ही कोई व्यक्ति जान सकता है की उसका कोरोना वायरस से रिस्क कितना है ।
- 8- यदि आपने पिछले दिनों कोई विदेश यात्रा की है तो यह App ICMR के डेटाबेस से, संदिग्धों से आपके संक्रमण की जानकारी देगा ।
- 9- इसके अलावा आयुष मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों के लिंक आरोग्य सेतु एप पर जाकर देख सकते हैं।
- 10- एप का फायदा लेने के लिए समय-समय पर इसे खोल कर अपनी व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर सकते हैं।

जैसे-जैसे अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग करेंगे, इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी।